

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट ने, 10 मार्च से शुरू करते हुए, स्टील्स वेस्ट कॉरिडोर की सेवा स्थगित की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 मार्च, 2021) – ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) ने, 10 से, स्टील्स वेस्ट कॉरिडोर (Steeles West Corridor) तक की सेवा स्थगित कर दी है।

यह एक संचालन संबंधी फैसला है, जो पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सक्रिय जांच के दौरान ब्रैम्पटन ट्रांज़िट द्वारा लिया गया है।

निम्नलिखित रूट प्रभावित होंगे:

- 511 ज़ूम स्टील्स (511 Züm Steeles) और 11 स्टील्स (11 Steeles): सेवा का अंतिम स्टॉप स्टील्स एवेन्यू (Steeles Avenue) और चिंगकूज़ी रोड (Chinguacousy Road) होगा
- 51 हेरफोर्ड (51 Hereford): सेवा का अंतिम स्टॉप स्टील्स एवेन्यू और फाइनेंशियल ड्राइव (Financial Drive) होगा।

यह सस्पेंशन, कम से कम सात दिन तक प्रभावी रहेगा। अपडेट उपलब्ध होने पर हम आपको प्रदान करेंगे। अतिरिक्त बदलाव लागू किए जा सकते हैं। जानकारी और रूट बदलने के विवरणों के लिए, www.bramptontransit.com पर जाएं।

पील पब्लिक हेल्थ की कोविड-19 संबंधी सामुदायिक जांच

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, पील पब्लिक हेल्थ के साथ मिलकर काम कर रहा है, जब वे अपनी सामुदायिक जांच पूरी कर रहे हैं।

कर्मचारियों और जनता को सुरक्षित रखने में मदद के लिए, पील पब्लिक हेल्थ के निर्देश के मुताबिक, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के ऑपरेटर्स को ऑन-साइट टेस्टिंग प्रदान की गई है और उनके लिए मेडिकल मास्क पहनना आवश्यक किया गया है। क्योंकि कुछ मामलों में, उन्हें सेल्फ-आइसोलेट होने (खुद को दूसरों से अलग करने) की जरूरत हो सकती है, जिससे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का सेवा स्तर प्रभावित हो सकता है।

पील पब्लिक हेल्थ ने बताया है कि टेस्टिंग, केवल अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए की जा रही है। इस समय, सलाह दिए गए अतिरिक्त उपायों के साथ, ट्रांज़िट के ऑपरेटर्स, जनता या सवारियों को कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं है। हालांकि, सामुदायिक ट्रांसमिशन का जोखिम बना हुआ है। सामुदायिक ट्रांसमिशन के कारण, ट्रांज़िट की सभी सवारियों के लिए, पब्लिक हेल्थ की सलाह का पालन जारी रखना महत्वपूर्ण है। यदि आपको लक्षण हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति के निकट संपर्क में आए हों, जिसका कोविड-19 का निदान हुआ है, तो ट्रांज़िट का प्रयोग न करें। ट्रांज़िट पर होने के समय, अधिक से अधिक संभव शारीरिक दूरी रखें, टाइट-फिटिंग वाला मास्क पहनें और अपना मास्क नाक और मुंह से नीचे उतारने से परहेज़ करें (खानपान के लिए मास्क उतारने सहित), यदि कोई मेडिकल एमरजेंसी न हो।

सामुदायिक जांच के बारे में अधिक विवरणों के लिए, कृपया पील पब्लिक हेल्थ को संपर्क करें। सेवा अपडेट्स के लिए, कृपया [ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का Twitter \(Brampton Transit's Twitter\)](#) देखें या 905.874.2999 पर फोन करें।

कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

पील पब्लिक हेल्थ की सलाह से, हम सवारियों को निम्नलिखित बातें याद दिलाते हैं:

- टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर होने के समय टाइट-फिटिंग वाले कपड़े से चेहरे को ढकना या गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना जरूरी है – मेडिकल स्थितियों संबंधी छूटें लागू होती हैं। चेहरे को ढकने का मतलब है कि आपका नाक, मुंह और ठोड़ी हमेशा ढकी हुई होनी चाहिए। अपना मास्क नाक और मुंह से नीचे उतारने से परहेज़ करें (खानपान के लिए मास्क उतारने सहित), यदि कोई मेडिकल एमरजेंसी न हो।
- टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर, मास्क पहनकर भी, शारीरिक दूरी कायम रखें।
- सफर करते समय, हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।
- यदि आप बीमार हैं, तो कृपया ट्रांज़िट पर सफर करने से परहेज़ करें, नजदीकी कोविड-19 एसेसमेंट साइट में टेस्ट करवाएं और पब्लिक हेल्थ के निर्देशों का पालन करें।

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, हमारे कर्मचारियों और समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए, कोविड-19 के संपर्क के संभावित जोखिम को कम करने के लिए, लगातार सभी जरूरी कदम उठा रहा है।

लिंक

- [कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 9 मार्च से ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सेवा में बदलाव \(Changes to Brampton Transit service in response to COVID-19 effective March 9\)](#)

-30-

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का मीडिया संपर्क

गुरविंदर सिंह (Gurvinder Singh)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

रीजन ऑफ पील का मीडिया संपर्क

ऐश्ले हॉकिन्स (Ashleigh Hawkins)

कम्युनिकेशंस स्पेशलिस्ट – पब्लिक हेल्थ

द रीजन ऑफ पील

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca